

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2014—आश्विन 18, शक 1936

भाग ४

विषय-सूची

- | | | | |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश, | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, | (3) संसद् के अधिनियम. |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम, | (2) अन्तिम नियम. | |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014

क्र. 4बी-1-2014-ए-सोलह.—चूंकि, राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपबंधों के अनुसरण में निम्न अनुसूची के 35 नियोजनों के लिये इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)-1-08-ए-सोलह, दिनांक 30 अप्रैल 2008 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों के पुनरीक्षण के बारे में प्रस्ताव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4(बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 4 मार्च 2014 द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 7 मार्च 2014 में प्रकाशित किया गया था.

अतएव, उक्त अधिनियम जिस रूप में मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 3 तथा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा इस संबंध प्राप्त सुझाव/ अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल 2008 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निष्प्रभावी करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में दर्शाए नियोजनों के लिये, कालम (3) में विनिर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों के वर्गों के लिये कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम वेतन दरें एवं कालम (5) में दर्शाए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें, दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से पुनर्निर्धारण करता है, तथा यह निर्देश देता है कि इस प्रकार पुनरीक्षित की गई न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से प्रवृत्त होंगी:—

अनुसूची

क्र.	नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी	मजदूरी की न्यूनतम दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
			प्रतिमाह	प्रतिदिन	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
1	किसी कपास जिनिंग एवं प्रेसिंग कारखाने में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे— कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— एकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे— टायपिस्ट, क्लर्क आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे— फीटर, बायलर, अटेंडेंट, टर्नर, मोल्डर, इंजिन ड्राईवर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे— ब्लेकस्मीथ, कारपेंटर, फायरमेन, कोबलर, वाल्वमेन, हाफप्रेसमेन आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे— रोलकटर, आईलमेन, चौकीदार, कुली, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास केरियर, डालेवाला, गनीबेग, फिलर, लिंट केरियर, काटनसीडस केरियर, बोंडेवाली कपास पीकर, स्वीपर, जिन फीडर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
		खण्ड दर पर लबाडिया (लेशर), तौलवाला, बेलसिवर (सीनेवाला), पालेवाला, पालेवाली डाबले, बोंदरी, फाडनेवाला, हसियन कटर (बारदान कटर).	43.31		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2	वन उपज में नियोजन	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे—मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		उच्च कुशल	9735.00	374.00	—तदैव—
		कुशल	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल	5939.00	228.00	—तदैव—
3	मार्गों के निर्माण तथा अनुरक्षण या भवन निर्माण कार्य में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—मेसन, कारपेंटर, केबिनेट मेकर, वूडपालिशर, प्लंबर, बोरर, ब्लेकस्मिथ, टीनस्मिथ, वेल्डर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—तारस्प्रेअर, पम्पअटेंडेंट, कारपेट ड्रेसर, व्हिलबरो, केरियर, हेमरमेन, सफेदीवाला, टाईल टर्नर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—मजदूर, चौकीदार आदि	5939.00	228.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
4	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे —कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे —मुख्य लिपिक, वरिष्ठ अकाउंटेंट, स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे —टाईपिस्ट, बिलमेन, यातायात कर्मचारीगण आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे —चालक (भारीवाहन), यांत्रिक (मेकेनिक), बिजलीवाला (इलेक्ट्रिशियन), रंगलेपक (पेंटर), फिटर, टर्नर, ब्लेकस्मिथ, वेल्डर, मोल्डर, कारपेंटर, शोपर, व्हालकनायजर, ग्राइंडर, डीलर, फ्रेममेकर, टिकर अपहोलस्टर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे —असिस्टेंट मेकेनिक, असिस्टेंट हेमरमेन, असिस्टेंट फिटर, असिस्टेंट टर्नर, असिस्टेंट डीलर, असिस्टेंट ग्राइंडर, असिस्टेंट कारपेंटर, असिस्टेंट पेंटर, असिस्टेंट टिकर, असिस्टेंट ब्लेकस्मिथ, असिस्टेंट मोल्डर, असिस्टेंट वेल्डर, असिस्टेंट वल्कनाईजर, असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट शोपर, असिस्टेंट पेटरनमेकर, असिस्टेंट ग्रासर, असिस्टेंट आईलर, असिस्टेंट टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला, निरीक्षक आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे —हेल्पर, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, व्हीकल अटेंडेंट, पहरेदार, मजदूर, स्वीपर, चपरासी आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
5	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे —कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे —अकाउंटेंट, केशियर, स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	7057.00	271.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		कुशल जैसे—फीटर, टर्नर, मोल्डर, मेकेनिक, मशीन आपरेटर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—सहायक फीटर, सहायक टर्नर, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक मेकेनिक, सहायक मशीन आपरेटर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—मजदूर, कुली, चौकीदार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
6	सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोटाइपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे—मुनीम अकाउंटेंट, केशियर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—कारपेंटर, मेसन, वुडपालिशर, टीनस्मीथ, ब्लेकस्मीथ, प्लंबर, शावल, डायक्लीन डोजर, स्केपर, ट्रेक्टर, डंपर कोअर, डीजल पम्प आदि के आपरेटर, सीनियर मेकेनिक, फीटर टर्नर, मोल्डर, इलेक्ट्रीशियन वायरमेन, बेलसिकर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—क्वेरीमेन, श्रेसर, टारस्प्रेयर, व्हायटिंग, कलरिंग, मेसरी ड्राइवर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—मजदूर, स्वीपर, चौकीदार, भिश्ती, डार्करनर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
7	किसी केमिकल्स तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोटाइपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे—मुनीम अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—केमिस्ट तथा लेबोरेटरीज, टेक्नीशियन के सहा., असि. फीटर, मेकेनिक, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, बायलर अटेंडेंट, वेथमिक्सर, प्लांट अटेंडेंट आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—मशीनमेन, टेबलेटमशीन आपरेटर, बोटल फीलर, केपसूल फिलर, पेंकिंग तथा लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—प्यून, हेल्पर, वाचमेन, बाटल क्लीनर, स्वीपर, चौकीदार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
8	किसी आरा मिल में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—बिलमेन, टाईपिस्ट, क्लर्क आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—मिस्त्री एवं अन्य कर्मचारी आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—सहायक मिस्त्री एवं अन्य	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—प्यून, चौकीदार आदि	5939.00	228.00	—तदैव—
9	किसी तेल मिल में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि.	7057.00	271.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		कुशल जैसे—इंजन ड्राइवर, फीटर, बायलर अटेंडेंट टर्नर, ब्लेकस्मिथ, मोल्डर एवं वेल्डर, चार्जमेन, इलेक्ट्रिशियन, एक्सपेलर मास्टर, मेकेनिक, टाईमकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—मुकादम असि. फीटर, आईलमेन, वायरमेन, पम्प अटेंडेंट, एक्सपेलरमेन, फिटरमेन, मशीन अटेंडेंट आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—प्यून, चौकीदार आदि	5939.00	228.00	—तदैव—
10	किसी चावल मिल आटा मिल या दाल मिल में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे—अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—इंजन ड्राइवर, फीटर, बायलर अटेंडेंट, श्रेषरमेन या राईस मिस्त्री या रोलर मिस्त्री, इलेक्ट्रिशियन, मोटरमेन तथा आपरेटर मेकेनिक, टाईमकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—असि. फीटर, आईलमेन, फायरमेन आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—प्यून, चौकीदार आदि	5939.00	228.00	—तदैव—
11	किसी मुरापोहा निर्माणी में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे—अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—बिलमेन, टाईपिस्ट, बिल कलेक्टर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		कुशल जैसे—मिस्त्री भट्टीवाला, पोहा बनाने वाला, मेकेनिक फीटर आदि.	8435.00	324.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		अर्धकुशल जैसे—असि. फीटर, आईलमेन, फायरमेन आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—प्यून, चौकीदार आदि	5939.00	228.00	—तदैव—
12	किसी खाद्य पदार्थ, जिसमें केक्स, बिस्किट्स, कम्पेक्शनरी, आईसक्रीम, आईसकैंडी, सम्मिलित है एवं पेय के निर्माण में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल—	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल	5939.00	228.00	—तदैव—
13	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—बिलमेन, टाईपिस्ट, क्लर्क आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल—	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल	5939.00	228.00	—तदैव—
14	किसी दुकान वाणिज्यिक संस्थान आवासीय होटल रेस्टोरेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		श्रेणी दो जैसे—बिलमेन, टाईपिस्ट, क्लर्क, बिलकलेक्टर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—सुपरवाइजर, आपरेटर, पेंटर, कारपेंटर, मेकेनिक, मिस्त्री, फीटर, टर्नर, मोल्डर, बेल्टर, इलेक्ट्रीशियन, रसोईया, तन्दूरची, टी मास्टर, आर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनाने वाला कर्मचारी आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—सहा. आपरेटर, रिवाईंडर, बुकिंग क्लर्क, वायरमेन, सहायक मिस्त्री, सहायक मेकेनिक, सहायक फीटर, सहायक टर्नर, सहायक मोल्डर, सहायक रसोईया, पेंटिमेन, असि. बेल्टर, असि. इलेक्ट्रीशियन, असि. सेल्समेन मसालची आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—चपरासी, वेटर, सर्विसमेन, गेटकीपर, क्लीनर, स्वीपर, पेंटर, हेल्पर, वाचमेन, ट्रालीबाय, पोस्टरमेन, व्हेन्डर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
15	किसी मुद्रणालय में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—बिलमेन, टाईपिस्ट, क्लर्क आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल श्रेणी एक जैसे—फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्टीचर, लिथो आफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथो आफसेट, प्लेटमेकर, लिथोआफसेट कापी पेस्टर, लिथो आफसेट प्रिंटर तथा लेथ ब्लेड प्रिंटर, लिथो आफसेट ट्रांसफर प्रिंटर आदि.	9685.00	372.00	—तदैव—
		कुशल श्रेणी दो जैसे—केमरा आपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टसमेन, हेटकम्प्यूटर,	9378.00	361.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		इलेक्ट्रीशियन, आफटीनएचर, ड्रायकलरेचर, लाइनो आपरेटर, लाइनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनो टाईप की बोर्ड आपरेटर, मोनो टाईप मेकेनिक आपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सीनियर रीडर आदि.		समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.	
		कुशल श्रेणी तीन जैसे —कम्पोजिटर, टाइप कास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेंडर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडर प्रेसमेनएचर, गिलेटिंग आपरेटर, रिवाइडर स्टीचर मशीनमेन, कटर, बाईंडर, सीविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीनमेन वायर स्टीचर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल श्रेणी एक जैसे —लिथो आफसेट, फीटरमेन, असि. प्रेसमेन, वार्निशमेन, बेक्सीनर, बाक्सिंग मशीनमेन, असि. प्लेटमेकर, असि. ट्रांसफर प्रिंटर, असि. लिथो आर्टिस्ट, टचर प्लेट, ग्रेनर, स्टोन पालिशर, असि. कापी पेस्टर, असि. कटर, असि. रोटा प्रिंटिंग आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल श्रेणी दो जैसे —स्टेडिंग फार्म कीपर, ट्रेसर, फोल्डींग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हैंड बाक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असि. केमरा आपरेटर, असि. एचर, लेटर प्रेस फिटर, काउंटर चेकर, नंबर या पेजींगमेन, चेकर, प्रुफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईप प्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइंडर, परफोरेटर, लेंबर पंजर, रूलिंग फीडर, विमिगमेन, ड्राइवर, डार्करूम असि. फाउंड्री, असि. ग्राइंडिंग आपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनि. बाईंडर, जूनि. मशीनमेन, लाइनोबारमेन, रिटेल सप्लायर, फिडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोरकीपर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल श्रेणी जैसे —रोटरी बिलर, हैंड फोल्डर, असि. कारपेंटर, बालर, हेल्पर बाईंडिंग बाय, ड्राइवर, मजदूर आक्जिलरी, गेली प्रूफ प्रेस मेन, बायलर अटेंडेंट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंग बाय, रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण आफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि.	5939.00	228.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
16	किसी सीमेंट पोल अथवा सीमेंट से निर्मित उत्पादन में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल—	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल	5939.00	228.00	—तदैव—
17	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल—	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल	5939.00	228.00	—तदैव—
18	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर, स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल—	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल	5939.00	228.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
19	किसी चूना भट्टा में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोटाइपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर, स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—मेटमेसन, ब्लेकस्मिथ, लोडर्स, अनलोडर्स, लाइन पेकर्स, ग्राइंडर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—असि. मेसन, असि. इलेक्ट्रीशियन, विच ड्राईवर, पंपखलासी, असि. ब्लेकस्मिथ आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—मजदूर, चौकीदार आदि	5939.00	228.00	—तदैव—
20	किसी ईट भट्टों में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोटाइपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—मिस्त्री, फीटर आदि	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—ड्रायवर, फायरमेन, गारावाला मिट्टी गूंथने या मिट्टी का घोल बनाने वाला, तथा निकालने वाला भट्टे या चिमनी पर ईट जमाने वाला आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		खंड दर पर ईट बनाने वाला	212.00	प्रति हजार ईट	
		गारा बनाना मिट्टी गूंथना, मिट्टी का घोल बनाना तथा ईट बनाने का संयुक्त कार्य ईट बनाना या ईटों की थप्पी लगाना, स्टेंकिंग कार्यरुद्ध.	371.00	प्रति हजार ईट	
		अकुशल जैसे—फ्यूलमेन मजदूर, चौकीदार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
21	किसी पावरलूम जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे —कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9734.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		1. व्हीवर (बुनकर)			
		1. काटनयार्न, दो लूम पर (फिल्टर या टेंट क्लाथ के कार्य तक लूम पर) अतिरिक्त सांचें चलाये जाने पर 33 प्रतिशत अतिरिक्त वेतन देय होगा.	8435.00	324.00	—तदैव—
		2. सिथेटिक यार्न लूम पर दो से चार सांचो के कार्य के लिये.	9258.00	356.00	—तदैव—
		3. स्वचलित (आटोमेटिक) लूम पर 6 सांचो के लिये.	9680.00	372.00	—तदैव—
		4. स्वचलित लूम पर 8 सांचो के लिये दो:—	9879.00	380.00	—तदैव—
		1. जाबर (मुकादम) काटन यार्न लूम के लिये.	9612.00	370.00	—तदैव—
		2. सिथेटिक यार्न लूम के लिये	9908.00	381.00	—तदैव—
		तीन:—			—तदैव—
		साईजर			
		1. फ्रंट साईजर	8435.00	324.00	—तदैव—
		2. बैंक साईजर	7057.00	271.00	—तदैव—
		चार :—			—तदैव—
		1. वार्पर	7057.00	271.00	—तदैव—
		2. ट्रेड इलेक्ट्रिशियन, बायलर अटेंडेंट, डिजाईनर, साईजिंग मास्टर.	9258.00	356.00	—तदैव—
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे —	8435.00	324.00	—तदैव—
		अकाउंटेंट, केशियर, स्टोर कीपर आदि.			
		श्रेणी दो जैसे —टाईपिस्ट, क्लर्क बिलमेन आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे —मिस्त्री, फीटर, इलेक्ट्रिशियन आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे —सहायक मिस्त्री, सहायक फीटर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, डंपिंगवाला, सिलाईवाला, आईलमेन, मशीनफोलर, स्टीपर, फेलर, हेडफोलर, काटा फोलर, गांठवाला, असि. जाबर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		अकुशल जैसे—मजदूर, चौकीदार, भृत्य, सफाईवाला, डेकोरेशन (महिलायें) फायरमेन, हेल्पर (बैंगार) छेडावाला सिलाई, ओपनिंग, डंपिंग आदि कार्य करने वाला.	5939.00	228.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
22	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर, हेड क्लर्क, सचिव, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, सहसचिव, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत लिपिक तथा अन्य आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—पर्यवैक्षक, आर्युवैदिक वैद्य, शिक्षक बालवाडी या अशासकीय आपरेटर, वाटर वर्क, पम्प ड्राईवर, प्लंबर, उपयंत्रि, बिजली मिस्त्री, ट्रेक्टर ड्राईवर एवं जीप ड्राईवर, वाचनालय संयोजक तथा अन्य.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, मोहरिर, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर वाटर वर्क्स तथा अन्य.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—मजदूर, चौकीदार, भृत्य, चरवाहा, कांजी हाउस, पंप अटेंडेंट, सफाई कर्मचारी, बालवाडी आया, लाईसेंस वेन्डर, ग्राम लक्ष्मी जमादार, मजदूर प्याउ पर पानी पिलाने वाला तथा अन्य.	5939.00	228.00	—तदैव—
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर - सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		श्रेणी दो जैसे—टाईपिस्ट, क्लर्क बिलमेन आदि.	7057.00	271.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		कुशल जैसे—वाहन चालक, मिस्त्री, फीटर, इलेक्ट्रीशियन आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—सायजर, सहायक मिस्त्री, मशीनों पर कोसाफल से धागा निकालने तथा धागे को मशीनों से ट्विस्ट संबंधी कार्य में लगे मजदूर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—चौकीदार, भृत्य, कोसाफल की गिनती करने वाला कोसाफल को छंटने वाला, कोसाफल को भांपदेने वाला, कोसाफल को सुखाने वाला, कोसाफली की नस्सी काटना, कोसाफल को बोरी में भरने वाला बोरी की सिलाई करने वाला आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
		1. कपड़ा बुनने वाला दैनिक दर पर (व्हीवर).	खंड दर रु. 77.00 प्रतिदिन.		
		(2) 1-टसर मलमल 6×6 (6 मीटर × 48 इंच).	रु. 15.00 प्रतिमीटर (अर्थात् 6 मीटर के लिये).		
		(2) टसर मलमल 6×8 (6 मीटर × 48 इंच).	रु. 24.00 प्रतिमीटर (अर्थात् 6 मीटर के लिये).		
		3- टसर मलमल 10× 10 (6 मीटर × 48 इंच).	रु. 132.00 प्रतिमीटर. (अर्थात् 6 मीटर के लिये).		
		अ- फेरी साड़ी प्लेन (6 मीटर × 48 इंच).	रु. 37.00 प्रतिमीटर.		
		ब- फेरी साड़ी टी.डी. (6 मीटर × 48 इंच).	रु. 37.00 प्रतिमीटर.		
		3- मलमल चेक (6 मीटर × 48 इंच).	रु. 15.00 प्रतिमीटर.		
		4- शर्टिंग	रु. 37.00 प्रतिमीटर.		
		5- 48 इंच टी.जी.एन. (25 मीटर से).	रु. 20.00 प्रतिमीटर.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		6- 48 इंच टी.जी. (25 मीटर से).	रु. 20.00 प्रतिमीटर.	
		7- (अ) टी. जी. झेड 48 इंच (ब) टी. जी. झेड 60 इंच (25 मीटर). (स) टी. जी. 60 इंच (25 मीटर से).	रु. 24.00 प्रतिमीटर. रु. 21.00 प्रतिमीटर. रु. 21.00 प्रतिमीटर.	
		(द) धीचा धागा बनाने बटवा धागा बनाने झेरी धागा बनाने के लिये.	(अ) 48.00 (ब) 51.00 (स) 55.00	प्रतिदिन 6 कोसा फल से रीलींग कर 125 ग्राम धागा निकालने पर. प्रतिदिन 8 कोसा फल से रीलींग कर 175 ग्राम धागा निकालने पर. प्रतिदिन 10 कोसा फल से रीलींग कर 225 ग्राम धागा निकालने पर.

कोसा उद्योग में जहां कोसाफल प्रदाय करके श्रमिकों को कोसाफल से धागा निकालकर कपड़ा बुनने तक का संग्रहित कार्य कराया जाता है, उसके लिये प्रचलित प्रकार के कोसा कपड़ों के लिये निम्नवत दरें निर्धारित की जाती हैं जिसमें निम्नलिखित के कोसा कपड़ों के निर्माण कार्य के लिये रिलिंग, साईजिंग, वारपिंग तथा विविंग आदि कार्यों की संयुक्त मजदूरी निर्धारित की गई है तथा इसमें अवशिष्ट एवं रद्दी हुए कोसाफलों का मूल्य कम कर दिया है, निम्नलिखित किस्मों से किस्म क्रमांक 4, 5, 6, 7 में उपरोक्त प्रक्रिया के अतिरिक्त किनारी और पल्लू की रंगाई की मजदूरी भी सम्मिलित है:—

	खंड दर
(1) टसर मलमल 6×6 (6 मीटर × 48 इंच) (कार्य में लगने वाले कोसाफलों की संख्या 400).	245.00
(2) टसर मलमल 8×8 (6 मीटर × 48 इंच) (कार्य में लगने वाले कोसाफलों की संख्या 552).	294.00
(3) टसर मलमल 10×10 (6 मीटर × 48 इंच) (कार्य में लगने वाले कोसाफलों की संख्या 650).	318.00

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		(4) टसर फेरा साड़ी प्लेन (6.40 मीटर × 48 इंच) (कार्य में लगने वाले कोसाफलों की संख्या 450).	489.00		
		(5) टसर फेरा साड़ी टी.डी. (6.40 मीटर × 48 इंच) (कार्य में लगने वाले कोसाफलों की संख्या 425).	538.00		
		(6) टसर फेरा साड़ी टी.डी. चेक (6.40 मीटर × 48 इंच) (कार्य में लगने वाले कोसाफलों की संख्या 425).	563.00		
		(7) टसर फेरा साड़ी टी.डी.बी. (2 बूटी) (6.40 मीटर × 48 इंच) (साधारण कार्य में लगने वाले कोसाफलों की संख्या 425). (विशेष प्रकार की बूटी संबंधी साड़ियों की मजदूरी की दरें इससे अधिक होगी जो की नियोजक एवं नियुक्तों द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर निश्चित की जा सकेगी).	685.00		
		(8) टी.जी. 48 इंच या टी.जी.एन. 48 इंच (25 मीटर) (कार्य में लगने वाले कोसाफलों की संख्या 900).	514.00		
		(9) टी.जी. 60 इंच या टी.जी.एन. 60 इंच (25 मीटर) (कार्य में लगने वाले कोसाफलों की संख्या 1000).	563.00		
		(10) टी.जी. झेड 48 इंच (25 मीटर) (कार्य में लगने वाले कोसाफलों की संख्या 900).	563.00		
		(11) टी.जी. 60 इंच या टी.जी.झेड, 48 इंच (25 मीटर) (कार्य में लगने वाले कोसाफलों की संख्या 1000).	587.00		
24	किसी खांडसारी उद्योग में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— एकाउंटेंट, केशियर, स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		श्रेणी दो जैसे—क्लर्क, टाईपिस्ट आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—सुपरवाइजर, वायरमेन, मिस्त्री, मेकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, भट्टीवाला आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—सहायक मिस्त्री, सहायक मेकेनिक, सहायक इलेक्ट्रीशियन, सहायक सुपरवाइजर, फोरमेन के सहायक रसोईया शक्कर बनाने वाला कारीगर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—चौकीदार, मजदूर, भृत्य, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईया के सहायक आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
25	किसी पाटरिज जिसमें रिफैक्ट्री समान फायर ब्रिक्स सेनेटरी वेअर्स इन्सूलेटर्स, टर्नर्स, (सीमेंट से निर्मित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर्स पाईप्स, फरनेस लाइनिंग, ब्रिक्स तथा अन्य सिरामिक्स समान सम्मिलित हैं में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— एकाउंटेंट, केशियर, बिलमेन, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—क्लर्क, टाईपिस्ट आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—प्रेसरमेन, फीटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, कारपेंटर, वेल्डर, ब्लेकस्मिथ, सेरामिस्ट, पाईपमिल, आपरेटर, पालिशर, टूल्स इंजार्च (मेट फिलिन) मेट (प्रोडक्शन) शेपरमेन, मोल्डर, ड्राईवर (कन्वेसर) लेथ मशीनीस्ट, फायरमेन, शेल्स क्लीनर, लेबोरेटरी असि. मेकेनिक, हेल्पर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—फीटर, हेल्पर, असि. इलेक्ट्रीशियन, किलनशाप श्रमिक, आपरेटर पंच एवं मेक्सयूलर, असि. मेकेनिक, किलन श्रमिक, असि. शेपरमेन, फ्रिक्शन, प्रेस श्रमिक, गार्डनर, ब्लेजर पेनमिल, हेल्पर, पंच मिक्सर, बी. एण्ड सी मिक्समेन, कास्टर किलन, किलन अनलोडर्स आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		अकुशल जैसे—चपरासी, माली, चौकीदार, श्रमिक (किलन), सेटर्स (किलन), श्रमिक (प्रोडक्शन), स्वीपर, कुली, हवालदार, क्लीनर आदि.	5939.00	228.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
26	किसी कंबल निर्माण कार्य में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— एकाउंटेंट, केशियर, स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—क्लर्क, टाईपिस्ट आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—उत्पादन सहायक, कताई इंचार्ज, मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, बायलर अटेंडेंट, मशीनमेन आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—फिनिशिंग कार्य में सहायक, कताई कर्मचारी उन कताई कार्य के लिये कतिने कटर, होजयरी, मशीन हेल्पर, होजयरी आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—भृत्य, चौकीदार, स्वीपर कॉर्डिंग, लेफा आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
		प्रति नग कंबल मजदूरी	की दर		
		(1) बुनकर (व्हीवर)			
		1- कंबल दोरूखा		66.00	
		2- कंबल डायमंड		33.00	
		3- कंबल चेक		24.00	
		4- कंबल चौकड़ा		22.00	
		5- कंबल हास्पिटल		21.00	
		6- कंबल होमगार्ड		21.00	
		7- कंबल साधारण प्लेन		18.00	
		(2) वाइंडर			
		1. कांडी	4.00 प्रति कंबल		—तदैव—
		2. गोट भराई	2.00 प्रति कंबल		—तदैव—
		(3) कतिने			
		1. धागा कताई	प्रति अंक 5.00 तथा 2.00 अंक कताई प्रति हजार तार मीटर		—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
27	किसी स्लेट पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		1. कटर्स	10155.00	391.00	—तदैव—
		2. रोलर्स, पाईन्टर्स, मिस्त्री	9522.00	366.00	—तदैव—
		3. पेकर, पट्टी, पेकरसिकर आदि	6705.00	258.00	—तदैव—
		4. मुनीम, लेखाकार, क्लर्क आदि	8435.00	324.00	—तदैव—
		5. मजदूर	5939.00	228.00	—तदैव—
28	किसी कत्था उद्योग में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— एकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	9225.00	355.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—क्लर्क, टाईपिस्ट आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—असि. सुपरवाइजर, आर्ट सुपरवाइजर, सिनीयर गार्ड, बायलर अटेंडेंट, फायरमेन, कारपेंटर, आपरेटर, वेटपेन आपरेटर, चीपर, मेकेनिक कम आपरेटर, बेडर्स मेकेनिक कम आपरेटर, कंप्रेसर्स, आपरेटर, वेल्डर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फीटर, मशीन आपरेटर पेन्डस मेकेनिक कम आपरेटर, टाईम कीपर, फील्टर इंचार्ज आपरेटर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—असि. पेन आपरेटर, असि. बेंडसा आपरेटर, असि. वेल्डर, असि. कारपेंटर, चीपर, मेकेनिक कम हेल्पर, बेंडसा मेकेनिक कम हेल्पर, फीटर सहायक वेल्डर, सहायक शार्टर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—मजदूर, कुली, चौकीदार, भृत्य आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
		खंड दर पर कार्य			
		1. बड़ा बाक्स पेंकिंग		9.00 प्रति बाक्स	
		2. छोटा बाक्स पेंकिंग		7.00 प्रति बाक्स	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
29	किसी रामरज या गेरू के निर्माण में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— एकाउंटेंट, केशियर, मुनीम, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—क्लर्क, टाईपिस्ट आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—मशीनमेन, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, सुपरवाइजर, आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—मेट, मुंशी, सहायक मशीनमेन आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—मजदूर, कुली, चौकीदार, भृत्य एवं बोरी भराई छनाई धुलाई वेंगन लदाई खाली कराई के काम में लगे श्रमिक.	5935.00	228.00	—तदैव—
30	किसी हाथकरघा उद्योग में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		पर्यवेक्षकीय वर्ग तथा लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे—सवैतनिक सचिव, तकनीकी तथा अन्य पर्यवेक्षकीय कार्य करने वाला व्यक्ति सूत वितरित, अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—क्लर्क, टाईपिस्ट, बिलमेन आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—मिस्त्री, फीटर, इलेक्ट्रीशियन, वाहन चालक, चरखा चालक, मास्टर, (कारीगर) जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेम लूम मास्टर, वार्पर मास्टर, प्रिंटिंग सहायक आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—सहायक मिस्त्री, सहायक फीटर, सहायक इलेक्ट्रीशियन, बिक्री सहायक सूत स्टाक इंचार्ज आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
		अकुशल जैसे—मजदूर, चौकीदार, भृत्य, सफाईवाला, चादर में गोटा लगाने वाला आदि.	5935.00	228.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
31	किसी बोन मिल में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे—मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		श्रेणी दो जैसे—क्लर्क, टाईपिस्ट आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—फीटर, मिस्त्री, बोनक्रशर आदि	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—मशीनमेन, मशीन आपरेटर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—मजदूर, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, हेल्पर चौकीदार, चपरासी, स्वीपर, क्लीनर आदि.	5935.00	228.00	—तदैव—
32	किसी टाईल्स जिसमें मैंगलोर टाईल्स अलाहाबाद टाईल्स तथा अन्य.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे—एकाउंटेंट, केशियर, स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
	स्थानीय नाम से प्रचलित टाईल्स सम्मिलित है परन्तु सीमेंट से निर्मित टाईल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन.	श्रेणी दो जैसे—क्लर्क, टाईपिस्ट आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—प्रेसमेन, फोरमेन, डायमेन, लीवरमेन, मिस्त्री, इंजिन ड्राईवर आदि	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—सुपरवाइजर, मिक्सरमेन, मिक्समेन, ग्राइंडर, मेन आदि	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—कुली, हेल्पर, मिट्टी ढोने भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, चौकीदार, चपरासी, स्वीपर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
33	किसी विनिर्माणी प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (क) में परिभाषित की गई, चलाई जाती है जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविष्टि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे —कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि. कुशल अर्धकुशल अकुशल	9735.00 8435.00 7057.00 5939.00	374.00 324.00 271.00 228.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार. —तदैव— —तदैव— —तदैव—
34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा परीक्षण केन्द्र, विकृति विज्ञान, (पेशाजिकल प्रयोगशाला) सम्मिलित है, में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे —कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि. लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे — एकाउंटेंट, केशियर, स्टोर कीपर, गोडाउन कीपर, हेड क्लर्क, (मुख्यलिपिक) मुनीम आदि. लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे —क्लर्क, (लिपिक) टाइपिस्ट आदि कुशल जैसे —रिसेप्शनिस्ट, स्टेनोग्राफर, टेलीफोन आपरेटर, लान्डी अटेण्डर, वाहन चालक, (भारी वाहन), कुक, सिक्योरिटी सुरवाइजर, दर्जी, रिकार्ड कीपर, ओ.टी. मेकेनिक आदि. अर्धकुशल जैसे —असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, असिस्टेंट सुरवाइजर, असिस्टेंट टेक्नीशियन, डार्करूम असिस्टेंट, फार्मासी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ईसीजी असिस्टेंट, असिस्टेंट कम्पाउन्डर, लिफ्टमेन, माली, धोबी, सहायक सिक्योरिटी सुपरवाइजर आदि. अकुशल जैसे —आया, स्वीपर, वार्ड बाय, सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षाकर्मी, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, वाचमेन, डाक रनर, हेल्पर, अटेण्डर, अटेण्डेंट, वाडै सप्लायर, मजदूर, सफाई कामगार आदि.	9735.00 8435.00 7057.00 8435.00 7057.00 5939.00	374.00 324.00 271.00 324.00 271.00 228.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार. —तदैव— —तदैव— —तदैव— —तदैव— —तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्थाओं, जिसमें कोचिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	समय-समय पर देय अनुसूची के नीचे दर्शाए अनुसार.
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक जैसे— व्यवस्थापक, एकाउंटेंट, केशियर, स्टोर कीपर, गोडाउन कीपर, हेड क्लर्क, (मुख्य लिपिक) आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो जैसे—टाइपिस्ट क्लर्क (लिपिक).	7057.00	271.00	—तदैव—
		कुशल जैसे—लायब्रेरियन (ग्रंथपाल) इलेक्ट्रीशियन, वाहन चालक, छात्रावास प्रभारी (वार्डन) कम्प्यूटर टायपिस्ट, रिशेप्सनिष्ट, सिक्युरिटी सुपरवाइजर, दर्जी आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
		अर्धकुशल जैसे—सहायक इलेक्ट्रीशियन, सहायक लायब्रेरियन, सहायक सिक्युरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
		अकुशल जैसे—स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, वाचमेन, डाक रनर, अप्रशिक्षित माली, सिक्युरिटी गार्ड, सुरक्षाकर्मी, आया, सफाई कामगार, मजदूर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता टीप.—उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में दर्शाई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) जनवरी, 2014 से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है. 241 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ 5 में दर्शाई गई वेतन दरों में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल अथवा 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रुपये 25/- के हिसाब से की जावेगी और स्तम्भ 5 में दी गई दरों में हुई यह वृद्धि स्तम्भ 6 के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी, एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, इसी प्रकार एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा. यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा.

2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

3. अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है:—

“अकुशल कर्मचारी” वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

“अर्द्धकुशल कर्मचारी” वह है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

“कुशल कर्मचारी” वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

“उच्च कुशल कर्मचारी” वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी।

5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।

6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।

8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

9. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी।

क्र. 4 सी-1-2013-अ-सोलह.—चूंकि, राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपबंधों के अनुसरण में निम्न अनुसूची के 'किसी अगरबत्ती उद्योग में नियोजन' के लिये इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (सी)/1-97/श्रम/सोलह/ए, दिनांक 12 जनवरी 1999 जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 15 जनवरी 1999 में प्रकाशित हुई थी एवं संशोधन अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (सी)/1-97/श्रम/सोलह/ए, दिनांक 18 मार्च 1999, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 2 अप्रैल 1999 में प्रकाशित हुई थी, के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों के पुनरीक्षण के बारे में प्रस्ताव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (सी)/1-2013/ए/सोलह, दिनांक 20 जून 2013 द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 5 जुलाई 2013 में प्रकाशित किया गया था।

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप में मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 3 तथा 5 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में प्राप्त सुझाव/अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इस विभाग की उक्त अधिसूचनाओं दिनांक 12 जनवरी 1999 एवं 18 मार्च 1999 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निष्प्रभावी करते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शाए नियोजनों के लिये, कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों के वर्गों के लिये, कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम वेतन दरें एवं कॉलम (5) में दर्शाए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें, दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से पुनर्निर्धारण करता है, तथा यह निर्देश देता है कि इस प्रकार पुनरीक्षित की गई न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से प्रवृत्त होगी:—

अनुसूची

कर्मचारियों के वर्ग (1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें (2)	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की दर (3)
(अ) अगरबत्ती रोलर (1000 अगरबत्ती रोल करने पर)		मूल्य सूचकांक पर आधारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना नीचे दी गई अनुसूची में दिए गए स्पष्टीकरण अनुसार देय होगी.
साधारण	रु. 21.40	100 पैसे प्रति 4000
सुगंधित (सेन्टेड).	रु. 22.00	100 पैसे प्रति 4000

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पैकेट में भरकर पेकेट के दोनों ओर चिट लगाकर पेकेट बन्द करना :—

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

(1) 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 20.48 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500
(2) 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500
(3) 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500
(4) 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 27.23 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 400
(5) 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 36.58 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 300
(6) 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 41.54 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 250
(7) 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 250
(8) 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 52.76 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 200

सिलोफेन या जिलेटिन के

(1) 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500
(2) 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 26.60 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 400
(3) 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 33.00 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 300
(4) 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 34.48 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 300
(5) 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 37.03 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 300
(6) 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 250
(7) 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 51.00 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 200
(8) 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 54.47 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 200

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिन कर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बंद कर चिट लगाना:—

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

(1) 10 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा रु. 16.98 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 600
(2) 12 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा रु. 17.80 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 600
(3) 23 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा रु. 21.30 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500
(4) 50 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा रु. 22.19 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 500
(5) 100 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा रु. 26.60 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 400
(6) 200 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा रु. 28.70 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 400

(ई) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर बंद करना :—

बिना सिलोफेन या जिलेटिन के

(1) 5 अगरबत्ती के लिये	प्रति सैकड़ा रु. 3.85 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 2500
(2) 10 अगरबत्ती के लिफाफे के लिये रोल बनाना.	प्रति सैकड़ा रु. 4.44 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 2200
(3) पुंगली बनाने के कागज (रोलिंग पेपर्स).	प्रति एक हजार रु. 36.34 पैसे	100 पैसे प्रति बिन्दु 1500

कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें

कर्मचारियों का वर्ग (1)	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (3)
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
एकाउन्टेन्ट, केशियर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क, स्टोरकीपर.	रु. 8435.00	रु. 324.00	मूल्य सूचकांक पर आधारित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता की गणना नीचे दी गई अनुसूची के पैरा एक में दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार की जावेगी.
टायपिस्ट, क्लर्क	रु. 7057.00	रु. 271.00	
मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी बनाने वाला	रु. 8435.00	रु. 324.00	
पेटी भरने वाला, मसाला तौलने वाला	रु. 7057.00	रु. 271.00	
पूड़ा बनाने वाला, मसाला भरने वाला, भृत्य, चौकीदार.	रु. 5939.00	रु. 228.00	

नोट:—अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी, जैसे पेटी बनाने वाला, मिस्त्री, ड्रायवर, पेटी भरने वाला, मसाला तौलने वाला, एकाउन्टेन्ट, केशियर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर, टायपिस्ट, क्लर्क, भृत्य, चौकीदार आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अन्तर्गत समय-समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार विनियमित होंगे.

स्पष्टीकरण

1. **परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता टीप.**—उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ 2 में दर्शाई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) जनवरी, 2014 से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है. 241 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ 2 में दर्शाई गई वेतन दरों में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल अथवा 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रुपये 25/- के हिसाब से की जावेगी और स्तंभ 2 में दी गई दरों में हुई यह वृद्धि स्तंभ 3 के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी, एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, इसी प्रकार एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी। जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।

3. निर्धारित मासिक वेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा।

4. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।

5. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।

6. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणकों को पूर्णांक करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20-9-06 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हों तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

क्र. 4 सी-1-2013-अ-सौलह.—चूंकि, राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11, सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपबंधों के अनुसरण में अधिनियम की अधिसूचित अनुसूची के भाग-1 की प्रविष्टि क्रमांक 36, 39 से 48, 50 से 55 तथा 57 से 66 में उल्लेखित नियोजनों में प्रथमबार न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण का प्रस्ताव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4 (सी)/1-2013/ए/सौलह, दिनांक 20 जून 2013 के द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 5 जुलाई 2013 में प्रकाशित किया गया था।

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप में मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 3 तथा 5 की उपधारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में प्राप्त सुझाव/अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में दर्शाए नियोजनों के लिये, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नियोजित कर्मचारियों के वर्गों के लिये, कॉलम (5) में यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम वेतन दरें एवं कॉलम (6) में दर्शाए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें, दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से निर्धारित करता है, तथा यह निर्देश देता है कि इस प्रकार निर्धारित की गई न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से प्रवृत्त होगी:—

अनुसूची

क्र.	अनुसूची क्रमांक	नियोजन का नाम	कर्मचारियों का वर्ग/श्रेणी	मजदूरी की न्यूनतम दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				प्रतिमाह	प्रतिदिन
1	36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे— कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक— जैसे एकाउंटेंट, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), मुनीम, रिकार्डकीपर आदि.	8435.00	324.00
					नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
					—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे क्लर्क (लिपिक), कम्प्यूटर टायपिस्ट, टायपिस्ट आदि.	7057.00	271.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			कुशल—जैसे प्लेंकेट मशीन आपरेटर, आर्मटाप आपरेटर, कटिंग मास्टर, टेलर, फाइव श्रेड आपरेटर, बेल्ट मशीन आपरेटर, कटर, पेटर्न मास्टर, फरमें बनाने वाला, लुप्समेकिंग आपरेटर, सुपरवाइजर, चेकर, प्युसिंग आपरेटर, कालर व कप चिपकाना, साइड मुडा शर्ट की साइट लगाना, प्रेसमेन आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे पेकिंग वाले, लेअरमेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लुप्सटकिंग आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे धागा कटिंग, चेकिंग, लोडिंग-अनलोडिंग, हेल्पर, चौकीदार, साफ सफाई वाले आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
2	39	किसी खदान जैसे कंकड़, मुर्रम, लेट्राईट, बोल्टर, ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाइम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनो-टायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक— जैसे प्रबंध सहायक, एकाउंटेंट, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउटकीपर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक) आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो— जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक).	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल— जैसे मशीन से मिट्टी खोदने वाले, जेसीबी आपरेटर, डम्पर ऑपरेटर, वाहन चालक, चालक (भारी वाहन) यांत्रिक (मैकेनिक) बिजली वाला (इलेक्ट्रिशियन) आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—असिस्टेंट मैकेनिक, असिस्टेंट बिजली वाला आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—हेल्पर, चपरासी, सफाई करने वाला, चौकीदार, मजदूर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
3	40	किसी ऑटोमोबाईल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजेस में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि. लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक— जैसे एकाउंटेंट, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), मुनीम, रिकार्डकीपर आदि. लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे क्लर्क (लिपिक), कम्प्यूटर टायपिस्ट, टायपिस्ट आदि. कुशल—जैसे रिसेप्शनिस्ट, टेलिफोन-आपरेटर, वाहन चालक, कम्प्यूटर आपरेटर, वेल्डर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियर, मेकेनिक, मिस्त्री, पेन्टर आदि. अर्धकुशल—जैसे असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन, असिस्टेंट सुपरवाइजर, असिस्टेंट टेक्नीशियन, लिफ्टमेन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आदि. अकुशल—जैसे सिक्यूरिटी गार्ड, सुरक्षाकर्मी, चौकीदार, मृत्यु, हेल्पर, अटेण्डर, मजदूर, सफाई कामगार आदि.	9735.00	374.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है. —तदैव— —तदैव— —तदैव—
4	41	किसी बैकरी में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि. लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे व्यवस्थापक, एकाउंटेंट, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउनकीपर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक) आदि. लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो— जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क, (लिपिक). कुशल— जैसे बेकरी कारीगर, ओवन/भट्टी कारीगर, सेल्समेन, कुक, इलेक्ट्रीशियन, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, रिसेप्शनिस्ट, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि. अर्धकुशल— जैसे सहायक कुक, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, वाहन चालक (हल्का) आदि.	9735.00	374.00	—तदैव— —तदैव— —तदैव— —तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			अकुशल—जैसे ओवन अटेण्डर, चौकीदार, भृत्य, सुरक्षाकर्मी, सफाई कामगार, मजदूर आदि.	5939.00	228.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
5	42	किसी कोल्ड स्टोरेज (शीतागार) में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक) स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक).	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल— जैसे वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, मशीन आपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, मैकेनिक सुपरवायजर, प्लम्बर, वेल्डर-मेकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आम्ड, सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, सहायक मशीन ऑपरेटर, सहायक क्रेन ऑपरेटर, सहायक मेकेनिक, वाहन चालक (हल्का), तुलावटी आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्टोर अटेण्डेंट, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, सफाई कामगार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
6	43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक) स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			कुशल— जैसे सेल्समेन, रिसेप्सनिस्ट, इलेक्ट्रिशियन, कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			अर्धकुशल—जैसे सहायक सेल्समेन, असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक कारपेंटर, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, सफाई कामगार आदि.	4945.00	190.00	—तदैव—
7	44	किसी होटल रेस्टोरेंट या भोजनालय में में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक) स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक).	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल— जैसे हेड-कुक, कुक, रिसेप्सनिस्ट, कैप्टन, बारमेन, स्टुवर्ड, आर्डर मास्टर, वाहन चालक, कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, मेकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड, माली आदि.	8435.00	201.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे सहायक कुक, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, सहायक माली आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे रूम अटेण्डेंट, वेटर, बैलवाँय, लाण्ड्रीमेन, वाशरमेन, स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, सफाई कामगार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
8	45	किसी सिनेमागृहों या थियेटरों में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक).	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल— जैसे प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्टनिस्ट, रिवाइन्डर, वाहन चालक (भारी). कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड, मेकेनिक, आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे बुकिंग क्लर्क, असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक कारपेंटर, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, गेटकीपर, सफाई कामगार, पोस्टर मेन, आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
9	46	किसी क्लब में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक).	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल— जैसे रिसेप्शनिस्ट, जिम ट्रेनर, गोम्स ट्रेनर, कोच, गोताखोर, डायटिशियन, मसाजर, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, इलेक्ट्रिशियन, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड, बाउन्सर, क्लब मास्टर, माली आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे सहायक जिम ट्रेनर, सहायक गोम्स ट्रेनर, सहायक कोच, असिस्टेंट, सुपरवाइजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, वाहन चालक (हल्का), सहायक माली आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			अकुशल—जैसे बेलबाँय, रूम अटेन्डेन्ट, स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, अटेण्डेंट, सफाई कामगार आदि.	5939.00	228.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
10	47	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त पेय निर्माण में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनो-टायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक).	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल— जैसे केमिस्ट, चेकर, लेब टेक्नेशियन, बायलर अटेन्डेण्ड, प्लांट आपरेटर, टेक्नेशियन, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, इलेक्ट्रिशियन, माली, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड, सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे बाटलिंग पेकिंग, लेबलिंग, असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक वेल्डर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक माली, सहायक सिक्युरिटी सुपरवाइजर, वाहन चालक (हल्का) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, प्लांट अटेंडेंट, सफाई कामगार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
11	48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनो-टायपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुंशी. स्टेनोग्राफर, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), रिकार्डकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			कुशल— जैसे ग्रंथपाल, अनुवादक, सिक्क्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्क्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			अर्धकुशल—जैसे सहायक ग्रंथपाल, वाहन चालक (हल्का) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्क्यूरिटी गार्ड, मजदूर, सफाई कामगार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
12	49	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनो-टाइपिस्ट, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल— जैसे ब्यूटीशियन, सेलून मास्टर, हेयर ड्रेसर, मसाजर, रिसेप्सनिस्ट, कम्प्यूटर आपरेटर, आर्म्ड सिक्क्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे सहायक ब्यूटीशियन, सहायक सेलून मास्टर, वाहन चालक (हल्का) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्क्यूरिटी गार्ड, पार्लर अटेण्डेण्ट, सेलून अटेण्डेण्ट, सफाई कामगार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
13	50	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड्स (कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनो-टाइपिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			कुशल— जैसे पेस्टीसाईड्स विशेषज्ञ, केमिस्ट, लेब टेक्निशियन, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपरवायजर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, माली, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे सहायक केमिस्ट, सहायक लेब टेक्निशियन, सहायक माली, असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, वाहन चालक (हल्का) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, सफाई कामगार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
14	51	किसी ड्रिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल— जैसे ड्रिलिंग ऑपरेटर, मेकैनिक, ट्यूबवेल मेकेनिक, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर ऑपरेटर, सुपरवायजर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे सहायक मेकेनिक, सहायक ड्रिलिंग ऑपरेटर, असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक प्लम्बर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, वाहन चालक (हल्का), सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, वाचमेन, सुरक्षाकर्मी, मजदूर, ड्रिलिंग मशीन अटेंडेण्ट, सफाई कामगार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
15	52	किसी इलेक्ट्रॉनिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल— जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स मेकेनिक, असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक वेल्डर, वाहन चालक (हल्का), सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, सफाई कामगार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
16	53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पों में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल— जैसे वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, वेल्डर, सुपरवायजर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे असिस्टेंट सुपरवायजर, वाहन चालक (हल्का) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, हेल्पर, पेट्रोल पम्प अटेंडेंट, आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
17	54	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल— जैसे मशीन से मिट्टी खोदने वाले जैसे जेसीबी ऑपरेटर, डम्पर ऑपरेटर, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, मेकेनिक, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे सहायक कम्प्यूटर आपरेटर, असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक मेकेनिक, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, वाहन चालक (हल्का) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, मिट्टी खोदने वाला आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
18	55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल—जैसे आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातूगलाई-पीटना, तारखिचना, सेल्समेन, आभूषण जड़ाई करने वाला, कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पॉलिश करने वाला वाहन चालक (हल्का), असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, कारीगर के सहायक, सफाई कामगार, माला गुथना आदि.	5939.00	228.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
19	57	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल—जैसे वाहन चालक (भारी), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, कम्प्यूटर आपरेटर, मेकेनिक, सुपरवाइजर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे सहायक कम्प्यूटर आपरेटर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सहायक वेल्डर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक मेकेनिक, वाहन चालक (हल्का) सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, ऑटो-टेक्सी अटेंडेंट, सफाई कामगार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
20	58	किसी विपणन सेसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव्ह सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव्ह बैंक) में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल—जैसे सेल्समेन, वाहन चालक (भारी) कम्प्यूटर आपरेटर, इलेक्ट्रिशियन, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			अर्धकुशल—जैसे सहायक सेल्समेन, असिस्टेंट सुपरवायजर, वाहन चालक (हल्का), सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
21	59	किसी होजियरी में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल—जैसे निटिंग मास्टर, सिलाई, कटिंग, एम्ब्राईडरी करने वाला, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे पैकर, असिस्टेंट सुपरवायजर, वाहन चालक (हल्का) कॉज बटन वाला, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे प्रेस मेन, स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
22	60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटर्जेंट भी शामिल है) में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल—जैसे सोपमेकर्स, केमिस्ट, टेक्नीशियन, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			अर्धकुशल—जैसे सहायक केमिस्ट सहायक टेक्निशियन, सहायक असिस्टेंट सुपरवायजर, वाहन चालक (हल्का), सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
23	61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल—जैसे प्लांट ऑपरेटर, मशीन ऑपरेटर, बायलर अटेन्डेण्ट, चैकर, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, लैब टेक्नीशियन, केमिस्ट, मेकेनिक, सुपरवायजर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे सहायक प्लांट ऑपरेटर, सहायक मशीन ऑपरेटर, पैकर, असिस्टेंट सुपरवायजर, वाहन चालक हल्का, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
24	62	किसी खिलौना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित हैं, में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			कुशल—जैसे टॉयमेकर्स, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, कटर, स्टीचर, कारीगर, सेल्समेन, पेन्टर, सुपरवायजर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			अर्धकुशल—जैसे पैकर, सहायक पेन्टर, सहायक सेल्समेन, सहायक सुपरवायजर, वाहन चालक (हल्का), सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
25	63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल—जैसे रिसेप्सनिस्ट, डिटेक्टिव, बाउन्सर वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, वाहन चालक (हल्का) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
26	64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			कुशल—जैसे रिसेप्सनिस्ट, डाक बुकिंग करने वाला, डाक छटाई करने वाला, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			अर्धकुशल—जैसे डाक वितरण, वाहन चालक (हल्का), असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
27	65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेडक्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोरकीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			कुशल—जैसे रिसेप्सनिस्ट डाटा एनलाईजर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे असिस्टेंट सुपरवायजर, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, वाहन चालक (हल्का) आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, अप्रशिक्षित माली, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—
28	66	किसी अचार, बड़ी, पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन.	उच्च कुशल जैसे—कम्प्यूटर आपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह-स्टेनोग्राफर, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि.	9735.00	374.00	—तदैव—
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी एक—जैसे मुनीम, एकाउंटेंट, केशियर, हेड क्लर्क (मुख्य लिपिक), स्टोर कीपर आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
			लिपिकीय वर्ग श्रेणी दो—जैसे कम्प्यूटर टाइपिस्ट, टाइपिस्ट, क्लर्क (लिपिक) आदि.	7057.00	271.00	नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में दर्शायी गई दरों पर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है.
			कुशल—जैसे मशीन ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंथने वाला, चैकर, वाहन चालक (भारी), कम्प्यूटर आपरेटर, सुपरवायजर, सिक्यूरिटी सुपरवाइजर, आर्म्ड सिक्यूरिटी गार्ड आदि.	8435.00	324.00	—तदैव—
			अर्धकुशल—जैसे सहायक मशीन आपरेटर पेकर, असिस्टेंट सुपरवायजर, वाहन चालक (हल्का), सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाइजर आदि.	7057.00	271.00	—तदैव—
			अकुशल—जैसे स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, पापड़ बेलने का कार्य, अप्रशिक्षित माली, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, सुरक्षाकर्मी, सिक्यूरिटी गार्ड, मजदूर, सफाई कामगार आदि.	5939.00	228.00	—तदैव—

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता टीप.—उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में दर्शाई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100)जनवरी, 2014 से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है. 241 सूचकांक के उपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात के स्तंभ 5 में दर्शाई गई वेतन दरों में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल अथवा 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो, प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रुपये 25/- के हिसाब से की जावेगी और स्तंभ 5 में दी गई दरों में हुई यह वृद्धि स्तंभ 6 के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी, एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, इसी प्रकार एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गणना गत जनवरी से जून तक के छः माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर की जावेगी.

स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है. वह कैलेण्डर मास की समाप्ति पर देय होगा. यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेण्डर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी सन्दर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जाएगा.

2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए गये हैं. वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है.

3. अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल तथा उच्च कुशल कर्मचारी की सामान्य परिभाषा निम्नानुसार है:— “अकुशल कर्मचारी” वह है, जो ऐसे सरल कार्य करता है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं

पड़ती है। यद्यपि व्यावसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं तथा माल व सेवाओं से परिचित होना अपेक्षित है।

“अर्द्धकुशल कर्मचारी” वह है, जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का कार्य करता हो, जिसमें कि उसके अधिक निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य रोजमर्रा के एक जैसे समान कार्य करने तक ही सीमित है।

“कुशल कर्मचारी” वह है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। उसे उस व्यवसाय, शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना अपेक्षित है।

“उच्च कुशल कर्मचारी” वह है, जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो। काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो। उसे उस व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

4. उक्त अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि प्रचलित वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी।

5. किसी भी स्थापना या उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है, यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।

6. उक्त अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।

7. जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो वहां खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे दैनिक एवं छह दिन कार्य करने तथा एक दिन सवैतनिक अवकाश देने पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो।

8. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को पूर्णांक करके दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जाएगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर 2006 में पचास पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और पचास पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

9. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होगी।

क्रमांक 4 बी-1/2014/अ-16.—चूंकि राज्य शासन ने न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपबंधों के अनुसरण में निम्न अनुसूची के “कृषि में नियोजन” के लिये इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी)/1-2008-ए-सोलह, दिनांक 30-4-2008 के द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों के पुनरीक्षण के बारे में प्रस्ताव इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (बी)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 4 मार्च 2014 द्वारा ऐसे समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 7 मार्च 2014 में प्रकाशित किया गया था।

अतएव उक्त अधिनियम जिस रूप में मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 3 तथा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन द्वारा इस संबंध में प्राप्त सुझाव/अभ्यावेदनों पर विचार करने तथा अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 2 के परन्तुक द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 30 अप्रैल 2008 द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की दरों को निष्प्रभावी करते हुये, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (1)

में दर्शाए नियोजन के लिये, कॉलम (2) यथा विनिर्दिष्ट मजदूरी की न्यूनतम वेतन दरें एवं कॉलम (3) में दर्शाए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दरें दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से पुनर्निर्धारण करता है, तथा यह निर्देश देता है कि इस प्रकार पुनरीक्षित की गई न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 1 अक्टूबर 2014 से प्रवृत्त होगी:—

अनुसूची

नियोजन	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
(1)	(2)		(3)
अकुशल श्रमिक	रु. 5350/-	रु. 178/-	न्यूनतम मजदूरी की दरें तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता जो लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) जनवरी से जून 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह रुपये 6/- के मान से देय होगा. एक अप्रैल से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जुलाई से दिसम्बर तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी. इसी प्रकार एक अक्टूबर से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक 6 माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अन्तर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी.

स्पष्टीकरण

- मासिक मजदूरी पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर संगणित किया जावेगा.
- अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दर से अधिक है तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी.
- इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिये एक समान नियत है.
- कृषि नियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिये निर्धारित की गई न्यूनतम मजदूरी की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है.
- नियोजन में बाल श्रमिकों को यदि किन्ही प्रक्रियाओं में प्रतिबंधित नहीं किया गया है, बाल श्रमिकों का नियोजन होने पर उन्हें अकुशल श्रमिक का इस अधिसूचना अनुसार देय मजदूरी का 70 प्रतिशत भुगतान किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 2014

क्र. 1493/4सी-1/2013/अ-16.—न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 वर्ष 1948) जिस रूप में यह मध्यप्रदेश राज्य में प्रयुक्त है, की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, निम्नांकित नियोजनों को उक्त अधिनियम की अनुसूची के भाग एक में क्रमांक 70, 71 एवं 72 पर जोड़ता है, ऐसा करने के आशय की सूचना उक्त धारा द्वारा अपेक्षित किये अनुसार “मध्यप्रदेश राजपत्र” दिनांक 5 जुलाई 2013 के पृष्ठ क्रमांक 230 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-4(सी) 1-2013-ए-सोलह, दिनांक 20 जून 2013 द्वारा पूर्व में जारी की जा चुकी है :-

भाग-1

- “70. किसी सफाई कार्य में नियोजन.
71. किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन.
72. किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन.”

No. 1493/4 C-1-2013-A-XVI.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Minimum Wages Act, 1948 (No. 11 of 1948) in its application to the State of Madhya Pradesh, the State Government hereby adds the following employments, on Serial No. 71, 72 and 73 to part one of the Schedule to the Act, notices of its intention to do so having already been issued by this Department Notification No. F-4(C)1-2013-A-XVI, dated the 20th Jun 2013 as required by the said Section which has been published in “Madhya Pradesh Gazette” dated 5th July 2013 on Page No. 230:—

PART - I

- “70. Employment in Cleaning Works
71. Employment in Archeological Works
72. Employment in Information Technology Works.”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीनिवास शर्मा, उपसचिव.